



SHREE VASISHTHA VIDHYALAYA

Hindi 2nd Language Worksheet 2025-26

Name :-

Std.:- IV -

Roll No. :-

Worksheet No.TA-1-01

Date :-

पाठ -5, 6, 7

अपठित गद्यांश

जल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता। पेड़-पौधे, जानवर और इंसान सभी को पानी की आवश्यकता होती है। हमें रोज पीने, खाना बनाने, सफाई और खेती के लिए पानी चाहिए। लेकिन आजकल लोग पानी को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही पानी को व्यर्थ बहाते रहे तो एक दिन हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए समझाना चाहिए।

प्र-१) गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

१) पानी का उपयोग हम किन किन कामों में करते हैं??

२) जल किसके लिए जरूरी है?

३) जोड़कर लिखिए:

१) स् + अ + फ् + आ + ई

२) प् + आ + न् + ई

पाठ्यपुस्तक से

प्र-२) अर्थ लिखें:-

१) प्राणी -

६) नत -

२) स्वच्छ -

७) नूतन -

३) उमंग -

८) लज्जीज -

४) पाती -

९) लाचार -

५) व्यायाम -

१०) उत्साह -

प्र-३) रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:-

१) बैल अपने से बहुत प्यार करते थे।

२) चाचा जी रहने के लिए करते थे।

३) घर का खाना तत्वों का खजाना है।

४) खेलने से मजबूत होता है।

५) कवि ने खिड़की को कहा है।

६) खिड़की घर में लाती है।

प्र-४) प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए: -

- १) पत्र किसके बारे में लिखा गया है ?
- २) हमें सुबह जल्दी उठकर क्या करना चाहिए ?
- ३) बैलों के क्या नाम थे ?
- ४) नवप्रकाश की किरणे कौन लाती है ?
- ५) खिड़की कैसे कवि की थकान दूर करती है ?
- ६) हीरा और मोती ने मिलकर किसे भगा दिया ?

प्र-५) वाक्यों को पढ़कर सही (✓) या गलत (×) का निशान लगाइए:-

- १) खिड़की दुखद दृश्य दिखाती है।
- २) झूरी एक किसान था।
- ३) छोटी लड़की ने बैलों को खोल दिया।
- ४) हीरा मोती ने खेत में ^{नहीं} मटर खाया।
- ५) सुबह जल्दी ^{नहीं} उठना चाहिए।
- ६) बच्चों को मिष्ठान खाने चाहिए।

()

()

()

()

()

()

प्र-६) वर्णविच्छेद कीजिए: -

- १) स्वच्छ - ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ----

प्र-७) वाक्य बनाइए: -

१) खेल

२) स्वस्थ

प्र-८) अंकों को शब्दों में लिखिए: -

- १) ३१ - ----
- २) ३५ - ----
- ३) ४० - ----

- ४) ४८ - ----
- ५) ४५ - ----
- ६) ५० - ----

प्र-९) बीच का अंक लिखिए: -

- १) ३५-----३७
- २) १३-----१५
- ३) ४४-----४६

- ४) २४-----२६
- ५) ३२-----३४
- ६) १८-----२०